

टोल सूचना प्रणाली उपयोगकर्ता नियमावली (लघु संदेश सेवा)



(जुलाई 2014)

विषयसूची

<u>अध्याय - 1</u>	<u>प्रस्तावना</u>	<u>3</u>
1.1	एसएमएस के द्वारा टोल सूचना	3
<u>अध्याय - 2</u>	<u>एंड्रॉयड अनुप्रयोग (ऑफलाइन)</u>	<u>6</u>
2.1	100 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित सभी टोल प्लाजा की सूची प्राप्त करना.....	6

अध्याय - 1 प्रस्तावना

टोल सूचना प्रणाली (TIS) मोबाइल फोन के माध्यम से एक टोल प्लाजा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार किया गया है। मोबाइल फोन पर जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न विकल्प हैं।

1.1 एसएमएस के द्वारा टोल सूचना

टोल शुल्क के बारे में सूचना पूर्वनिर्धारित प्रारूप में संदेश को शॉर्ट कोड 56070 पर एसएमएस भेज कर प्राप्त किया जा सकता है. इस सुविधा का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को जिस राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ने वाले टोल प्लाजा का विवरण पता करना है उस राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग की जानकारी होनी चाहिए. राज्य के नाम की जगह उस राज्य के वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पर राज्य के नाम के लिए इस्तेमाल होने वाले दो अक्षरों को प्रयोग में लाना है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या को यून ही प्रयोग करना है. उदाहरणार्थ : गुजरात के लिए- GJ; महाराष्ट्र के लिए- MH; मध्यप्रदेश के लिए- MP; उत्तरप्रदेश के लिए-UP; पंजाब के लिए-PB; हरियाणा के लिए-HR; तमिलनाडु के लिए-TN; केरल के लिए- KR आदि.

- **चरण 1:** उपयोगकर्ता चयनित राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित टोल प्लाजा की सूची प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए, राज्य के नाम के दो अक्षरों एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को निम्नलिखित प्रारूप में मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में टाइप करेंगे एवं शॉर्ट कोड 56070 पर एसएमएस भेज देंगे. उदाहरणार्थ :

गुजरात से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर अवस्थित टोल प्लाजाओं की सूची प्राप्त करने के लिए शॉर्ट कोड 56070 पर निम्न एसएमएस भेजना है:

TIS GJ 8

जवाब में, उपयोगकर्ता को चयनित राज्य (गुजरात) से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (संख्या 8) पर मौजूद सभी टोल प्लाजा(ओं) के नाम और आईडी के साथ एक एसएमएस प्राप्त होगा.

- **चरण 2:** उपयोगकर्ता को अपने चयनित टोल प्लाजा (बोरियाच) का आईडी (287) निम्नलिखित प्रारूप में शॉर्ट कोड 56070 पर भेजना पड़ेगा जिसके जवाब में उस प्लाजा के शुल्क विवरण के साथ एक एसएमएस मिलेगा.

TIS 287

ऊपर दिए गए विकल्पों का सचित्र विवरण नीचे दिया गया है :

चरण 1 :

उपयोगकर्ता टोल प्लाज़ा की सूची एवं आईडी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप में शॉर्ट कोड 56070 पर एसएमएस भेज सकते हैं :

एसएमएस प्रारूप :

TIS<Space><State Short Code><Space><NH No.>

उदाहरण : (गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के लिए)

TIS GJ 8



चरण 2 :

उपयोगकर्ता को चयनित राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के लिए टोल प्लाज़ा आईडी के साथ टोल प्लाज़ा के नामों की सूची मिल जाएगी।

चरण 3 :

उपयोगकर्ता प्राप्त सूची में से चयनित टोल प्लाज़ा (यथा बोरियाच) के आईडी (287) नोट कर लें।



चरण 4 :

उपयोगकर्ता टोल प्लाज़ा आईडी का उपयोग कर संदेश बॉक्स में टाइप करें :

TIS <space> <टोल प्लाज़ा आईडी>

उदाहरण: (टोल प्लाज़ा बोरियाच के लिए)

TIS 287

एवं शॉर्ट कोड 56070 पर एसएमएस भेज दें।

अब उपयोगकर्ता को परिणाम मिल जाएगा.



परिणाम:

उपयोगकर्ता को चयनित टोल प्लाज़ा के अद्यतन टोल शुल्क विवरण के साथ एक एसएमएस प्राप्त होगा जैसा की संलग्न चित्र में दिखाया गया है।



अध्याय - 2 एंड्रॉयड अनुप्रयोग (ऑफलाइन)

2.1 100 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित सभी टोल प्लाजा की सूची प्राप्त करना

एंड्रॉयड अनुप्रयोग सुविधा के द्वारा उपयोगकर्ता 100 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित सभी टोल प्लाजा की सूची प्राप्त कर सकते हैं .अगर उपयोगकर्ता को राज्य और /या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पता नहीं है तो यह सुविधा विशेष रूप से अधिक उपयोगी है .एंड्रॉयड अनुप्रयोग टोल सूचना प्रणाली पोर्टल www.nhtis.org से डाउनलोड की जा सकती है और देश में किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करते समय प्रयोग में लाया जा सकता है.

होम स्क्रीन पर एक बटन प्रदान किया गया है जिसे दबाकर उपयोगकर्ता) उपयोगकर्ता के मोबाइल फोन भौगोलिक स्थिति के आधार पर 100 (किलोमीटर की परिधि के भीतर अवस्थित सभी टोल प्लाजा की सूची के साथ टोल प्लाजा की आईडी प्राप्त कर सकता है .

इसके बाद अध्याय - 1 के तहत चरण 4 में वर्णित तरीके से इस सूची में से किसी भी टोल प्लाजा का विवरण पता करने के लिए एसएमएस सेवा का उपयोग कर सकता है.

